



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1938 (श10)
(सं० पटना 487) पटना, शुक्रवार, 10 जून 2016

बिहार विधान-सभा सचिवालय

विवरणिका
31 मार्च 2016

सं० वि०सं०नियम-04/16-672/वि०सं०—बिहार विधान-सभा में दिनांक 31.03.2016 को सदन द्वारा पारित संशोधन संबंधित प्रस्ताव के अनुसरण में बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संलग्न नियम-4(i), 4(ii), 5(2), 6(1)(ii), 6(3)(क), 6(5), 7, 21(1), 23, 82(2), 83(2), 145, 167, 176(5), 220(1), 225(11), 231(7), 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 256, 258, 272(2), 292(क)(3), 292(क)(3)(ख) एवं 292(च)(पपप)(ग) में संशोधन के प्रावधान की अंगीकार किया गया है, जो विवरणिका के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

नियम समिति

नियम समिति द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-4(i), 4(ii), 5(2), 6(1)(ii), 6(3)(क), 6(5), 7, 21(1), 23, 82(2), 83(2), 145, 167, 176(5), 220(1), 225(11), 231(7), 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 256, 258, 272(2), 292(क)(3), 292(क)(3)(ख) एवं 292(च)(iii)(ग) में प्रस्तावित संशोधन निम्न प्रकार हैं :-

- (1) नियमावली के नियम-4(i) के तृतीय पंक्ति में शब्द “स्थापित” के स्थान पर शब्द “स्थगित” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (2) नियमावली के नियम-4(ii) की प्रथम पंक्ति में शब्द “प्रक्रम के” के स्थान पर शब्द “प्रक्रम से” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (3) नियमावली के नियम-5(2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द “विशेषाधिकार” के बाद शब्द “प्रस्ताव” जोड़ा जाये ।
- (4) नियमावली के नियम-6(1)(ii) की प्रथम पंक्ति में शब्द “और” के स्थान पर शब्द “में” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (5) नियमावली के नियम-6(3)(क) में शब्द “ढंग” के स्थान पर शब्द “भंग” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (6) नियमावली के नियम-6(5) की प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ पंक्ति में शब्द “विमर्श” के स्थान पर शब्द “वाद-विवाद” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (7) नियमावली के नियम-7 की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में शब्द “राज्यपाल के” के स्थान पर शब्द “राज्यपाल का” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (8) नियमावली के नियम-7 की द्वितीय पंक्ति में शब्द “विमर्श” के स्थान पर शब्द “वाद-विवाद” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (9) नियमावली के नियम-21(1) की तृतीय पंक्ति में शब्द “अंतिम” के स्थान पर शब्द “औपबोधिक” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (10) नियमावली के नियम-23 की तृतीय पंक्ति में शब्द “अल्प सूचना” के स्थान पर शब्द “अल्पसूचित” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (11) नियमावली के नियम-82(2) की प्रथम पंक्ति में दो बार अंकित “सदस्य को” में से एक बार अंकित “सदस्य को” विलोपित किया जाये ।
- (12) नियमावली के नियम-83(2) की प्रथम पंक्ति में शब्द “का” के स्थान पर शब्द “या” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (13) नियमावली के नियम-145 की प्रथम पंक्ति के अन्त में चिन्ह “,” के स्थान पर शब्द “या” जोड़ा जाये ।
- (14) नियमावली के नियम-167 की तृतीय पंक्ति में शब्द “का” के स्थान पर शब्द “के” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (15) नियमावली के नियम-176(5) की प्रथम पंक्ति में शब्द “को” के स्थान पर शब्द “की” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (16) नियमावली के नियम-220(1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द “के बदले” के स्थान पर शब्द “या” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (17) नियमावली के नियम-225(11) की प्रथम पंक्ति में शब्द “प्रमाणित” के स्थान पर शब्द “प्रभावित” प्रतिस्थापित किया जाये ।
- (18) नियमावली के नियम-231(7) की प्रथम पंक्ति में शब्द “यह” के स्थान पर शब्द “यदि” प्रतिस्थापित किया जाये ।

- (19) नियमावली के नियम-233, 234, 235, 236, 237, 238 की द्वितीय पंक्ति में “विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे” के साथ शब्द “स्थानीय निकायों” एवं नियम-239 की द्वितीय पंक्ति एवं छठवीं पंक्ति में “विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे” के साथ “स्थानीय निकायों” शब्द जोड़ने का प्रावधान किया जाये।
- (20) नियमावली के नियम-241 के पूर्व शीर्षक “सरकारी उपक्रम समिति” के स्थान पर शब्द “सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (21) नियमावली के नियम-256 के प्रथम शब्द “सदन” के स्थान पर शब्द “सभा” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (22) नियमावली के नियम-258 में निम्न संशोधन जोड़ा जाये :-
- (क) समिति राज्य के अन्दर नये पुस्तकालयों के सृजन एवं राज्य में स्थित सरकार द्वारा सम्प्लोषित/निर्बाधित पुस्तकालयों के कार्यकलापों की जाँच कर सकेगी तथा राज्य की जनता के लिए उपयोगी बनाने हेतु प्रतिवेदन के माध्यम से अपनी अनुशंसा कर सकेगी।
- (ख) समिति राज्य के बाहर की पुस्तकालयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगी तथा बिहार विधान मंडल पुस्तकालय एवं राज्य के पुस्तकालयों के संबंधन हेतु अपनी अनुशंसा करेगी।
- (23) नियमावली के नियम-272(2) की द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति में शब्द “एक ही सत्र में” को विलोपित किया जाये।
- (24) नियमावली के नियम-292(क)(3) की प्रथम पंक्ति में (क) के पूर्व (i) विलोपित किया जाये।
- (25) नियमावली के नियम-292 क(3)(ख) की चौथी पंक्ति में शब्द “की” के स्थान पर शब्द “को” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (26) नियमावली के नियम-292(च)(iii)(ग) में शब्द “विविध” के स्थान पर शब्द “विधिक” प्रतिस्थापित किया जाये।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 487-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>